

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला भिण्ड में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

### जिला-भिण्ड, मध्यप्रदेश

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री त्रिवेन्द्रम कुमार गर्ग	सहायक यंत्री, विद्युत् सुरक्षा एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक, भिण्ड	विद्युत् विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
2.	श्री महेश चन्द्र दुबे	सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लहार	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सम्पूर्ण भिण्ड जिला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	श्री प्रभाकर मिश्रा	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भिण्ड	उद्योग विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
4.	श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया	प्राचार्य, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि., भिण्ड	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
5.	डॉ. एस. एन. सिकरवार	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
6.	श्री बी. एस. कुशवाह	परियोजना अर्थशास्त्री जिला पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
7.	श्री पी. एल. ठाकुर	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन, यंत्री, भाण्डेर नहर, नि.स. 10 लहार.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
8.	श्री डी. एस. कुशवाह	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री, भाण्डेर नहर नि. स. 10 लहार.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
9.	श्री जे. एन. पाण्डे	अनुविभागीय कृषि अधिकारी, लहार	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
10.	श्री रामनिवास बुधौरिया	परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास लहार	महिला बाल विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
11.	श्री अरविन्द दुबे	सहायक प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.प., भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
12.	श्री संजय माथुर	सहायक प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.प., भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
13.	श्री बी. आर. बंसल	प्रबंधक, खादी ग्राम उद्योग जिला पंचायत, भिण्ड	उद्योग विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
14.	श्री जे. एन. शर्मा	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रौन	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
15.	श्री सुरेश वर्मा	संविदा परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
16.	श्री करन सिंह कुशवाह	बी.ई.ओ. लहार	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
17.	श्री आई. पी. एस. भदौरिया	उपयंत्री कार्यालय, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, भिण्ड.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
18.	श्री प्रीतम सिंह यादव	सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
19.	श्री के. आर. गोयल	सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, भिण्ड	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
20.	श्री प्रदीप चक्रवर्ती	संविदा परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
21.	श्री अतुल प्रकाश सकसैना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
22.	श्री एस. एल. तोमर	अनुविभागीय अधिकारी कृषि, भिण्ड	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
23.	श्री आर. एस. यादव	सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग	सहकारिता विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
24.	श्री आर. एस. भदौरिया	उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, भिण्ड	लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
25.	श्री प्रदीप मिश्रा	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, सहायक भू-जलविद, भू-जल सर्वेक्षण, भिण्ड.	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
26.	श्री आर. एस. चौहान	उपयंत्री सहायक भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक भू-जलविद, भू-जल सर्वेक्षण, भिण्ड.	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
27.	श्री आर. एस. अग्रवाल	उपयंत्री सहायक भू-संरक्षण अधिकारी सहायक भू-जलविद, भू-जल सर्वेक्षण, भिण्ड.	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
28.	श्री एम. एस. तोमर	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	श्री एच. जी. अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मेंहगांव ग्रामीण विकास विभाग		सम्पूर्ण भिण्ड जिला
30.	श्री विनोद कुमार शर्मा	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भिण्ड.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
31.	श्री जी. एस. दुबे	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
32.	श्री एस. के. पाठक	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
33.	श्री आर. एल. मिश्रा	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
34.	श्री के. एस. बघेल	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
35.	श्री आर. पी. शर्मा	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
36.	श्री पी. एस. चौहान	प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि., जवासा	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
37.	श्री बी. एन. शिवहरे	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
38.	श्री एम. पी. एस. कुशवाह	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
39.	श्री के. जी. दुबे	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
40.	श्री ओ. पी. राजौरिया	सहायक यंत्री, नलकूप उपखण्ड, भिण्ड	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
41.	श्री एस. के. सिंह	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, भिण्ड	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
42.	श्री के. एस. पटवा	जिला पंजीयक, भिण्ड	राजस्व विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
43.	श्री एम. एस. अम्ब	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला भिण्ड.	महिला बाल विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
44.	श्री आर. ए. शर्मा	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भिण्ड	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
45.	श्री बी. एल. शाक्य	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भिण्ड.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
46.	श्री के. एल. पालव	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भिण्ड.	लोक निर्माण विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
47.	श्री बी. डी. बरेलिया	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, गोहद.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
48.	श्री ए. के. द्विवेदी	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, गोहद.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
49.	श्री जे. सी. गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, गोहद.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
50.	श्री एम. एल. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, गोहद.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
51.	श्री एम. के. चतुर्वेदी	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भिण्ड	उद्योग विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
52.	श्री एस. एम. त्रिपाठी	सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, भिण्ड	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	श्री बी. के. लहारिया	खण्ड शिक्षा अधिकारी बी.ई.ओ., बी.आर.सी., गोहद.	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
54.	श्री आर. सी. जाटव	सहायक यंत्री, जिला पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
55.	श्री के. एन. शर्मा	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
56.	श्री विमल कुमार सोनी	सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, भिण्ड.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
57.	श्री जी. एस. भदौरिया	उपयंत्री कार्य. यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, भिण्ड.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
58.	श्री आशुतोष शुक्ला	क्षेत्रीय सहायक जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, भिण्ड.	आदिम जाति कल्याण विभाग.	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
59.	श्री एस. के. शर्मा	सहायक यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भिण्ड.	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
60.	श्री रमेश सिंह भदौरिया	उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
61.	श्री मनोज कश्यप	उप संचालक किसान कल्याण कृषि विकास विभाग, भिण्ड.	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
62.	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग, भिण्ड	वन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
63.	श्री के. पी. परमार	सहायक यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं., भिण्ड	विद्युत् विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
64.	श्री सी. एल. जयंत	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
65.	श्री एस. एन. तिवारी	जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, भिण्ड.	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
66.	श्री आई. पी. एस. सेंगर	कनिष्ठ यंत्री, एस.टी.डी. संभाग, भिण्ड (विद्युत् विभाग).	विद्युत् विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
67.	श्री आर. एस. यादव	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
68.	श्री मनोज आर्य	उप जिला विस्तार एवं माध्यम अधि. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड.	स्वास्थ्य विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
69.	श्री नवप्रीत सिंघेड़िया	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड.	स्वास्थ्य विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
70.	श्री विजय सिंह भदौरिया	प्राचार्य डार्ट, भिण्ड	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
71.	श्री महेश कुमार बादल	खण्ड शिक्षा अधिकारी, भिण्ड	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
72.	श्री आर. एस. भदौरिया	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
73.	श्री एस. सी. मुहाड़कर	कनिष्ठ यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं., भिण्ड	विद्युत् विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
74.	श्री व्ही. एस. यादव	कनिष्ठ यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं., भिण्ड	विद्युत् विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75.	श्री कोमसिंह सिंहवानिया	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड.	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
76.	श्री रमेश सिंह भदौरिया	सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
77.	श्री आई. सी. बारोठ	महाप्रबंधक एम.पी.आर.आर.डी.ए., भिण्ड (प्रधानमंत्री सड़क योजना)	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
78.	श्री जी. आर. घोटे	सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
79.	श्री जे. सी. एस. चौहान	उपयंत्री, जल संसाधन संभाग, भिण्ड	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
80.	श्री आर. एन. बरूआ	उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
81.	श्री अब्दुल सत्तार	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मेंहगांव	कृषि विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
82.	श्री वी. के. आर्य	प्राचार्य, उ.मा.वि., गोरमी	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
83.	श्री एस. सी. गुप्ता	सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, भिण्ड	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
84.	श्री रमेश चन्द्र चौधरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अटेर	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
85.	श्री अखलेश जैन	उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, भिण्ड	सहकारिता विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
86.	श्री एम. के. जैन	उद्यान अधिकारी, भिण्ड	उद्यान विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
87.	श्री ए. एस. तोमर	क्षेत्रीय संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, भिण्ड.	आदिम जाति कल्याण विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
88.	श्री एम. के. त्रिपाठी	तकनीकी सहायक जिला पंचायत, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
89.	श्री एस. बी. कबीरपंथी	उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
90.	श्री आर. सी. साल्वी	सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहायक पंजीयक अंकेक्षण सहकारी समिति, भिण्ड.	सहकारिता विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
91.	श्री सी. पी. विमल	सहायक अध्यापक शासकीय स्नातक महाविद्यालय, अटेर.	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
92.	श्री आर. एस. परिहार	सहायक अध्यापक शासकीय स्नातक महाविद्यालय, अटेर.	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
93.	श्री आर. एस. भिलवार	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड	शिक्षा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
94.	श्री एस. के. श्रीवास	सहायक वाणिज्यकर अधिकारी वाणिज्यकर कार्यालय, भिण्ड.	वाणिज्य विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
95.	श्री बृजेन्द्र कोरी	वाणिज्यकर अधिकारी वाणिज्यकर विभाग, भिण्ड	वाणिज्य विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
96.	श्री एस. के. सब्बरवाल	सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, भिण्ड	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
97.	श्री एम. आर. शाक्यवार	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, भिण्ड	पशु चिकित्सा विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
98.	श्री ओ. पी. पासशर	उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, भिण्ड	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99.	श्री मनीराम मौंगरे	निरीक्षक सहकारिता विभाग, भिण्ड	सहकारिता विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
100.	श्री डी. के. श्रीवास्तव	उपयंत्री, प्रधानमंत्री सड़क योजना, भिण्ड	ग्रामीण विकास विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
101.	श्री एस. के. शर्मा	उपयंत्री, जल संसाधन, भिण्ड	जल संसाधन विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
102.	श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, भिण्ड.	आदिम जाति कल्याण विभाग.	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
103.	सुश्री उपासना राय	एकीकृत महिला एवं बाल विकास अधिकारी, भिण्ड.	महिला बाल विकास विभाग.	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
104.	श्री फूलसिंह जादौन	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	राजस्व विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
105.	श्री सुरेश श्रीवास्तव	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	राजस्व विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
106.	श्री देवसिंह तोमर	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख	राजस्व विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला
107.	श्री आर. एन. मिश्रा	अधीक्षक भू-अभिलेख	राजस्व विभाग	सम्पूर्ण भिण्ड जिला